

Roll No.

Total Printed Pages - 16

F - 125

**M.Com. (Fourth Semester)
EXAMINATION, MAY-JUNE 2022**

(Optional Group-(C): Banking and Insurance-II)

BANKING INSTITUTION IN INDIA

Time : Three Hours]

[Maximum Marks:80

नोट : निर्देशानुसार सभी खण्डों के उत्तर दीजिए।

Note : Attempt all sections as directed.

खण्ड-अ

Section-A

वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्पीय प्रश्न

(Objective/Multiple Choice Questions)

(1 mark each)

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए।

Note : Attempt all questions. Choose the correct answer.

P.T.O.

[2]

1. भारत में पहला वाणिज्यिक बैंक कब स्थापित किया गया?

(A) 1806

(B) 1881

(C) 1865

(D) 1894

When was the first Commercial Bank established in India?

(A) 1806

(B) 1881

(C) 1865

(D) 1894

2. भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया?

(A) 1935

(B) 1949

(C) 1955

(D) 1921

When was the Reserve Bank of India nationalised?

(A) 1935

(B) 1949

(C) 1955

(D) 1921

F - 125

[3]

3. निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सर्वोच्च कृषि ऋण संस्था के रूप में कार्य करता है?

- (A) राज्य सहकारी बैंक
- (B) केन्द्रीय सहकारी बैंक
- (C) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
- (D) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

Which of the following bank acts as the apex agricultural credit institution -

- (A) State Co-operative Bank
- (B) Central Co-operative Bank
- (C) Primary Agricultural Credit Co-operative Society
- (D) National Bank for Agriculture and Rural Development

4. अनुमत अतिरिक्त तरलता (Permissible Excess Liquidity) के अंतर्गत क्षेत्रीय बैंकों को प्रायोजित बैंक के पास अपने कोष का कितना प्रतिशत रखना पड़ता है?

- (A) 12%
- (B) 15%
- (C) 10%
- (D) 20%

What percentage of their funds have to be kept with the sponsored bank by the Regional Rural Bank under the permissible excess liquidity?

- (A) 12%
- (B) 15%
- (C) 10%
- (D) 20%

[4]

5. निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है:

- (A) बैंक दर
- (B) परिवर्तनशील कोषानुपात
- (C) तरल कोषानुपात
- (D) साख की राशनिंग

Which of the following is not a method of quantitative credit control -

- (A) Bank Rate
- (B) Variable Fund Ratio
- (C) Liquid Fund Ratio
- (D) Rationing of credit

6. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई?

- (A) 1948 में
- (B) 1955 में
- (C) 1982 में
- (D) 1997 में

When was the National Bank for Agriculture and Rural Development established?

- (A) In 1948
- (B) In 1955
- (C) In 1982
- (D) In 1997

[5]

7. केन्द्र सरकार ने राज्य अर्थ प्रबंध अधिनियम (SFA) कब पास किया?

- (A) 28 दिसम्बर 1951
- (B) 1 जुलाई 1962
- (C) 5 नवंबर 1955
- (D) 1 अगस्त 1952

When did the Central Government pass the State Financial Management Act?

- (A) 28 December 1951
- (B) 1 July 1962
- (C) 5 November 1955
- (D) 1 August 1952

8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त होती है-

- (A) रिजर्व बैंक से
- (B) नाबार्ड से
- (C) राज्य सहकारी बैंक से
- (D) इनमें से कोई नहीं

Regional rural bank get refinance facility-

- (A) From the Reserve Bank
- (B) From the NABARD
- (C) From the State Co-operative Bank
- (D) None of these

[6]

9. नाबार्ड द्वारा ग्रामीण बैंकों के अध्ययन करने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया?

- (A) दन्तवाला समिति
- (B) नरसिम्हम समिति
- (C) केलकर समिति
- (D) इनमें से कोई नहीं

Which committee suggested the study of rural bank by NABARD-

- (A) Dantwala Committee
- (B) Narsimham Committee
- (C) Kelkar Committee
- (D) No one

10. भारत में अधिक प्रचलित है-

- (A) शाखा बैंकिंग
- (B) इकाई बैंकिंग
- (C) शृंखला बैंकिंग
- (D) समूह बैंकिंग

More popular in India-

- (A) Branch Banking
- (B) Unit Banking
- (C) Chain Banking
- (D) Group Banking

[7]

11. "बैंक साख का निर्माता है और विनिमय की सुविधा प्रदान करने वाली मशीन है" यह कथन किसका है-

- (A) हॉरेस ह्वाइट
- (B) ए.जी. हार्ट
- (C) प्रो० किनले
- (D) कैनेथ मेकन्जी

"Bank is manufacturer of credit and machine for facilitating exchange". Whose statement is this?

- (A) Harace White
- (B) A.G. Hart
- (C) Prof. Kinley
- (D) Keneth Machanzie

12. भारतीय रिजर्व बैंक के संचालक मंडल में कितने सदस्य होते हैं?

- (A) 15
- (B) 20
- (C) 25
- (D) 14

How many members are there in the Board of Director of Reserve Bank of India?

- (A) 15
- (B) 20
- (C) 25
- (D) 14

[8]

13. कमजोर बैंको की पुनर्स्थापना हेतु नैरो बैंकिंग की अवधारणा का सुझाव किस समिति ने दिया था?

- (A) केलकर समिति
- (B) नरसिम्हम समिति
- (C) वर्मा समिति
- (D) कोई नहीं

Which committee suggested the concept of Nero Bank-ing for the re-establishment of weak banks?

- (A) Kelkar committee
- (B) Narsimham committee
- (C) Verma committee
- (D) No one

14. नरसिंहम समिति ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया?

- (A) 16 जून 1999
- (B) 23 अप्रैल 1998
- (C) 24 जनवरी 1997
- (D) 5 मई 2000

When did the Narsimham committee submit there re-port?

- (A) 16 June 1999
- (B) 23 April 1998
- (C) 24 January 1997
- (D) 5 May 2000

[9]

15. बैंक सुधारों पर नरसिंहम समिति की मुख्य सिफारिश थी?

- (A) सांवेदिक तरलता अनुपात को घटाकर 25% तक लाना
- (B) निजी क्षेत्रों में नये बैंक खोलने की अनुमति देना
- (C) बैंकों को राजनीति से मुक्त करना
- (D) उपर्युक्त सभी

The main recommendation of Narsimham committee on bank sector reform was:

- (A) Reducing sensitive liquidity ratio to 25%
- (B) To allow opening of new bank in private sector.
- (C) Banks have to get away from politics.
- (D) All of the above

16. भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था?

- (A) इण्डियन बैंक
- (B) इम्पीरियल बैंक
- (C) पंजाब बैंक
- (D) इनमें से कोई नहीं

What was the old name of State Bank of India?

- (A) Indian Bank
- (B) Imperial Bank
- (C) Punjab Bank
- (D) None of these

[10]

17. केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थित होता है-

- (A) केन्द्र में
- (B) राज्य में
- (C) जिले में
- (D) इनमें से कोई नहीं

Central Co-operative bank is located at:

- (A) In Central
- (B) In State
- (C) In District
- (D) None of these

18. केन्द्रीय बैंक साख निर्माण किस प्रकार करता है:

- (A) व्युत्पन्न निक्षेपों के द्वारा
- (B) प्रारंभिक निक्षेपों के द्वारा
- (C) कागजी मुद्रा के नियमों द्वारा
- (D) उपर्युक्त सभी

How does the central bank create credit?

- (A) By way of derivative deposits.
- (B) Through initial deposits
- (C) By the rules of paper currency
- (D) All of the above

[11]

19. बैंक की साख निर्माण शक्ति किस बात पर निर्भर करती है?

- (A) साख जमा पर
- (B) नगद जमा पर
- (C) अधिविकर्ष सुविधाओं पर
- (D) उपर्युक्त सभी पर

On what does the credit building power of a bank depend :

- (A) On credit deposit
- (B) On cash deposit
- (C) On overriding facilities
- (D) All of the above

20. नोट निर्गमन का अधिकार है-

- (A) रिजर्व बैंक को
- (B) भारतीय स्टेट बैंक को
- (C) नाबार्ड को
- (D) सेण्ट्रल बैंक आफ इंडिया को

There is a right to issue paper currency-

- (A) Reserve Bank
- (B) State Bank of India
- (C) NABARD
- (D) Central Bank of India

[12]

खण्ड - ब

Section -B

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

(Very Short Answer Type Questions)

(2 marks each)

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Note : Attempt all questions.

1. विकास बैंक से क्या तात्पर्य है?

What do you understand by Development Bank?

2. इकाई बैंकिंग किसे कहते हैं?

What is unit banking?

3. बैंक दर से क्या आशय है?

What is meant by bank rate?

4. IFCI क्या है?

What is IFCI?

5. बैंकिंग कंपनी की परिभाषा लिखिए।

Define banking company

6. चालू खाता किसे कहते हैं?

What is current account?

[13]

7. व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं?

What are the main function of a commercial bank?

8. रिजर्व बैंक के दो प्रमुख कार्य लिखिए।

Write two main functions of Reserve Bank.

खण्ड-स

(Section-C)

लघु उत्तरीय प्रश्न

(Short Answer Type Questions)

(3 marks each)

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Note : Attempt all questions.

1. भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए।

Difference between land development bank and co-operative bank.

2. शाखा बैंकिंग का संक्षेप में उल्लेख कीजिए

Briefly state the branch Banking.

3. मिश्रित बैंकिंग प्रणाली पर संक्षिप्त नोट लिखिए

Write a short note on mixed banking system

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यों की विवेचना कीजिए

Discuss the functions of Regional Rural Banks.

[14]

5. रिजर्व बैंक की परिमाणात्मक साख नियंत्रण के मुख्य उपकरण कौन कौन से हैं?

What are the main instrument of quantitative credit control of the Reserve Bank.

6. अधिविकर्ष तथा नकद साख में क्या अंतर है?

What is the difference between overdraft and cash credit.

7. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्य बताइए।

State the functions of Industrial Development Bank of India.

8. निजी बैंकों से आप क्या समझते हैं? भारत के प्रमुख निजी बैंकों के नाम बताइए।

What do you understand by private banks? Give the names of main private bank in India.

[15]

खण्ड-द

(Section-D)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(Long Answer Type Questions)

(5 marks each)

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Note : Attempt all questions.

1. भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली की मुख्य विशेषताएं बताइए।

Describe the main features of commercial banking system in India.

2. रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? इसकी संगठनात्मक संरचना समझाइये।

Why RBI was nationalised? Explain its organisational set up.

3. बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए।

Explain the main provisions of Banking Regulation Act 1949.

4. भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क दीजिए।

Give argument in favour of nationalisation of Bank in India.

[16]

अथवा/OR

भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार स्वरूप सुझाए गये उपायों की समीक्षा कीजिए।

Examine the steps suggested to reform banking sector in India.